



**Bal Bharati  
PUBLIC SCHOOL**

Sector - 21, Noida  
Phone : 0120-2534054, 2538833 | E-mail : sbpsnoida@balbharti.org  
Website : <http://balbharti.org>

## हिंदी दिवस (2019-20)

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस का आयोजन पूरे जोश और हर्षोल्लास से किया गया । जिसमें कक्षा पहली से चौथी कक्षा तक के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया । इस बार विभिन्न प्रकार के खेलों द्वारा हिंदी भाषा संवर्धन गतिविधियों को मूर्त रूप दिया गया ।

कक्षा पहली में स्वर एवं व्यंजन की ज्ञान वृद्धि हेतु मनोरंजक खेल करवाया गया । जिसमें बच्चों ने छोटे-छोटे समूह बनाकर नए-नए शब्दों का निर्माण किया जिससे उनकी शब्दावली में बढ़ोतरी हुई । कक्षा में कई प्रकार की कहानियाँ भी सुनाई गई ।



स्वरों का प्रदर्शन करते छात्र

सामूहिक खेल खेलते हुए बच्चे

इसके अंतर्गत कक्षा -3 के सभी विद्यार्थियों ने एक पुराने खेल "पोशम - पा, भई पोशम - पा" के माध्यम से हिंदी शब्दों का निर्माण किया । इस गतिविधि का उद्देश्य कक्षा के नीरस वातावरण को जीवंत कर बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति उत्साह एवं रुचि बढ़ाना था । इस शिक्षा संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत सभी वर्गों के छात्र - छात्राओं ने खेल का भरपूर आनंद उठाते हुए हिंदी कालांश में एक -एक कर सभी मात्राओं से शब्दों का निर्माण किया ।



"पोशम-पा भई, पोशम-पा  
वैज्ञानिकों ने क्या किया  
चंद्रयान चला दिया  
यान में आ ( ा ) को बिठा दिया  
अब तो सबको सोचना पड़ेगा  
आ से शब्द बनाना पड़ेगा  
जो आ से शब्द बनाएगा  
शब्द ज्ञान वो पाएगा  
चाँद का दर्शन पाएगा ।"



कक्षा चौथी में छात्र-छात्राओं ने दैनिक जीवन की भाषा-शैली को रोचक बनाने वाले मुहावरों का ज्ञानवर्धन खेल द्वारा किया। इसमें बच्चों ने मुहावरों पर आधारित सुंदर चित्र बनाए। उन चित्रों को अन्य छात्रों को दिखाने के साथ-साथ संबंधित अभिनय भी किया। कक्षा के अन्य छात्रों ने चित्र और अभिनय का निरीक्षण कर के उस मुहावरे को पहचाना एवं अर्थ भी बताया।



मुहावरों पर अभिनय करते प्रफुल्लित छात्र-छात्राएँ

हर गतिविधि में विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक था। हमारा विद्यालय ऐसी व्यावहारिक आधारित गतिविधियों का समर्थन करता है। ऐसी गतिविधियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं।

संयोजिका :

मनीषा सेठी

इलाश्री जायसवाल

मुख्याध्यापिका

(प्राथमिक)